

OWNER'S MANUAL

REFRIGERATOR



Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference

कृपया उपकरण संचालन से पहले इस मैनुअल को ध्यान से पढ़ें और आगामी संदर्भ के लिए संभाल कर रखें।



MFL42961914
Rev.58_19102021

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.


CONTENTS

Page No.

1. Identification of Parts	2
2. Safety Instructions	2
3. Warning	3
4. Caution	4
5. Installation	5
6. Identification of Control	6
7. Features	6
8. Operating Procedure	7
9. Lamp Replacement.....	8
10. How to get good results	8
11. Disposal of your old appliance.....	9
12. Self-Troubleshooting Guide.....	10
13. Warranty Card	11

Identification of Parts

Model No. : GL-171/181/191/199/201



NOTE

- Due to continuous improvements at LG EIL, specifications of refrigerator are subject to change without prior notice.
- If you find out some parts which are not in your unit, the parts are applied to other models.
- "ø" refers to either B or D, depending on the model purchased

Safety Instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE / प्रयोग से पहले निर्देश पढ़ें।

The following Safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

निम्नलिखित सुरक्षा दिशानिर्देशों का उद्देश्य अप्रत्याशित जोखिम या असुरक्षित या गलत संचालन से क्षति को रोकना है। दिशा-निर्देशों (नीचे दिये गये) चेतावनी के अनुसार सुरक्षा के लिए ध्यान करें।

⚠ This symbol is displayed to indicate matters and operation that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk. यह प्रतीक मामलों और संचालन को इंगित करने के लिए प्रदर्शित की जाती है जो जोखिम पैदा कर सकता है इस प्रतीक वाले भाग को ध्यान से पढ़ें और जोखिम से बचने के लिए निर्देशों का पालन करें।

⚠ WARNING/ चेतावनी

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

यह इंगित करता है कि निर्देशों का पालन करने में विफलता गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकती है।

⚠ CAUTION/ सावधान

This indicates that failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

यह इंगित करता है कि निर्देशों को का पालन करने में विफलता मामूली चोट या उत्पाद को नुकसान का कारण बन सकती है।

Disclaimer : The user should follow the instructions as per the owner's manual to avoid any malfunctioning of the product, accident or damage. The manufacturer is not liable for any accident or consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly from the product. The manufacturer's liability is limited only to the extent of repair or replacement of the product as per the terms and condition mentioned elsewhere in the document./उपयोगकर्ता को उत्पाद की किसी भी खराबी/दुर्घटना या क्षति से बचने के लिए ऑनर मैनुअल में दिये गये निर्देशों का पालन करना चाहिए। निर्माता किसी भी दुर्घटना या परिणाम या परिणामी देसा, संभावित या जीवन को नुकसान या उत्पाद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। दस्तावेज में कहीं भी उल्लिखित शर्तों के अनुसार निर्माता की देयता केंवल उत्पाद की मरम्मत या प्रतिस्थापन की सीमा तक सीमित है।

⚠️ WARNING / चेतावनी

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric, shock, injury or scaling to persons when using this product, follow basic precautions, including the following/ इस उत्पाद को उपयोग करते समय व्यक्तिगतों को विस्फोट, आग, विजली का झटका, चोट, मृत्यु या स्केलिंग के जोखिम को कम करने के लिए दिए, निम्नलिखित साहित्य बुनियादी सावधानियों का पालन करें।

Risk of Fire and Flammable Materials / आग और ज्वलनशील पदार्थों का जोखिम



This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.

यह प्रतीक आपको ज्वलनशील पदार्थों के प्रति सचेत करता है जो प्रज्वलित हो सकते हैं और यदि आप ध्यान नहीं देते तो आग का कारण बन सकते हैं।

- The Appliances containing isobutane refrigerant (R600a) (Refer Refrigerant type on spec label at the rear of refrigerator) which is combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
जिन उपकरणों में आइसोब्यूटेन रेफ्रिजरेंट (R600a) की एक अल्प मात्रा शामिल है (रेफ्रिजरेंट के प्रकार को spec label पर देखें) लेकिन यह भी ज्वलनशील है। कहीं ले जाते समय और उपकरण को इंस्टॉल करते समय इस बात का ध्यान सुनिश्चित करना चाहिए कि रेफ्रिजरेंट सर्किट के किसी भाग को नुकसान ना हो।
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1m² in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance.
यदि रिसाव का पता चलता है, किसी भी नग्न लपटों या प्रज्वलन के संभावित स्रोतों से बचे और उस कमरे को हवा दें जिसमें उपकरण कई मिनटों के लिए रखा है। रेफ्रिजरेंटिंग सर्किट में यदि रिसाव होता है तो एक ज्वलनशील गैस और हवा के मिश्रण के निर्माण से बचने के लिए उपयोग किए गए रेफ्रिजरेंट की मात्रा के अनुरूप होना चाहिए। उपकरण के अंदर R600a सर्द के प्रत्येक 8g के लिए कमरे का आकार 1m² होना चाहिए।

<p>Do not modify Power Cord length. Do not use any extension board & multiple socket outlet. Also, Do not share the same power socket outlet with other appliances./ पावर कॉर्ड की लंबाई को ना बदले। किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग ना करें। इसके अलावा अन्य उपकरणों के साथ एक ही पावर साइट को शेयर ना करें।</p>	<p>Do not use a damaged or an unspecified power cord. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a power cord available from the manufacturer or its service agent./ पुरानी और लोकेल पावर कॉर्ड का इस्तेमाल ना करें यदि कोई खरब हो तो उसे निर्माता या सर्विस एजेंट से पावरकॉर्ड को अत्यंत बदलना दें।</p>	<p>Plug in the power socket properly. It should not be loose or inserted half/प्लग को पावर साइट में सावधानी से लगायें। इसे लूज या आधा नहीं लगाना चाहिए।</p>
<p>Otherwise it will cause electrical shock or fire due to heat generation, अन्याय इससे विद्युत आघात या आग लगे सकती है।</p>	<p>It will cause electrical shock or fire./इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।</p>	<p>Otherwise, it will cause electric shock or fire due to heat generation or electrical shock./अन्याय इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।</p>

<p>In Order to prevent possible electric shock, Customer must ensure proper earthing in 3-pin Power socket outlet. If you have doubts on whether the appliance is properly earthed or the grounding instructions are not completely understood, consult a authorized service center./सम्भावित विद्युत आघात को रोकने के लिए ग्राहक को 3-पिन पावर साइट आउटलेट में सही अर्थिंग सुनिश्चित करनी होगी। यदि आपको संदेह है कि क्या उपकरण हमें सही या सार्वभौम निर्देशों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है एक अधिकृत सेवा केंद्र से परामर्श करें।</p>	<p>Appliance should be turned On/Off by a dedicated switch only./ उपकरण को केवल एक समर्पित स्विच द्वारा चालू/ बंद किया जाना चाहिए।</p>	<p>Child Entrapment Warning: An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove gaskets, latches lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.</p>
<p>In the event of an electric short circuit, earthing reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. Improper use of the earthing plug can result in an electric shock./इलेक्ट्रिक सर्किट की घटना में विद्युत धारा के लिए एक सुरक्षित रास्ता प्रदान करता है जो व्यक्ति को बच सकता है।</p>	<p>Otherwise, it will cause electrical shock or fire due to heat generation./अन्याय इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।</p>	<p>बच्चों के घरेलू से बचने के लिए चेतावनी: एक खाली रेफ्रिजरेंट बच्चों के लिए खतरनाक आकर्षण हो सकता है। गैसकेट, सिटकनी, ढक्कन या अपयुक्त मशीन का सम्पूर्ण दरवाजा हटा दें या इसे हानिरहित बनाने के लिए कोई दूसरा उपाय करें।</p>

<p>Do not keep any hot or flame related items lit candles or put stabilizers on the top or inside of refrigerator./कोई भी गर्म भारी सामग्री या जलती मोमबत्ती या स्टेबिलाइज़र्स फ्रिज के ऊपर या अन्दर ना रखें।</p>	<p>Do not use electrical appliances inside the refrigerator or keep them on top/inside the refrigerator such as TV, Cooler, Temple, Decoration Lighting, Harmful Chemicals, Cloth Top etc./ रेफ्रिजरेंट के अन्दर विद्युत उपकरण का प्रयोग ना करें तथा रेफ्रिजरेंट के ऊपर या अंदर ना रखें जैसे- टीवी, कुलर, मंदिर सजावट, प्रकाश, हानिकारक, रसायन कपड़ा।</p>	<p>Do not place the heavy objects (More than 5Kg) Container with liquid on the top of refrigerator. रेफ्रिजरेंट के ऊपर भारी सामान (5 किग्रा से अधिक) या कोई तरल पदार्थ ना रखें।</p>
<p>It may cause fire, injury or damage. ये आग, चोट या क्षति का कारण हो सकते हैं।</p>	<p>It may cause explosion or fire. इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।</p>	<p>It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door./रेफ्रिजरेंट का दरवाजा खोलते या बन्द करते समय यह गिर सकता है जिससे क्षति, आग या विद्युत आघात लग सकता है।</p>

Never store chemicals inside the Refrigerator.
रेफ्रिजरेटर के अन्दर रसायनिक पदार्थ न रखें।

It will cause explosion, fire or any unwanted reaction.
इससे विस्फोट, आग या कोई अवांछित प्रतिक्रिया होगी।

Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing/ खोले के बर्तन, बोतलें या कैन (खास तौर पर जो किम्वं कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होते हैं) को फ्रीजर वाले भाग, उसकी खानों या बर्द से ठिंके में न रखें ऐसा करने से तापमान जमाव बिन्दु से नीचे जाता जाएगा।

It may cause explosion due to expansion when the contents are frozen./ सामग्री के विस्तार के कारण विस्फोट हो सकता है।



Do not touch the appliance & electrical wirings /power socket outlet with wet hands or in damp environment./ नमले हाथों या नम वातावरण में उपकरण और बिजली के तारों/पॉवर सॉकेट आउटलेट को न छुएं।



Do not splash water on your refrigerator.
रेफ्रिजरेटर पर पानी न डालें।

It may cause short circuit./ इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है।



Unplug the appliance before cleaning or maintenance./ सफाई या मरम्मत करते समय उपकरण का प्लग निकाल दें।

It may cause electric shock or injury.
इससे विद्युत आघात लग सकता है या क्षति हो सकती है।



Do not damage the refrigerator circuit.

रेफ्रिजरेट सर्किट को क्षति न पहुंचायें।

Keep hands away from the hinge during opening and closing the door, may get injury.

बरखावा खोलने एवं बंद करने के दौरान हाथों को कब्जे से दूर रखें, इससे क्षति हो सकती है।

Keep the ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
उपकरण को स्थापित करते समय रूकावटी वस्तुओं को हटा दें तथा वेन्टीलेशन को खुला रखें।

It may cause explosion or fire./ यह विस्फोट या आग का कारण बन सकता है।

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer निर्माता द्वारा सुझाए गये उपायों के अतिरिक्त डिफॉस्टिंग/बर्फ पिघलाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किसी यांत्रिक युक्ति या अन्य उपकरणों का प्रयोग न करें।

It may cause refrigerator leakage, explosion or fire./ यह रेफ्रिजरेट रिसाव, विस्फोट या आग का कारण बन सकता है।

CAUTION / सावधानी

To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following./ इस उत्पाद का उपयोग करते समय व्यक्तिगतों को घोट, खराबी या उत्पाद या संपत्ति को नुकसान को कम करने लिए निम्नलिखित सावधानी बूझनी चाहिए।

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as – staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; – farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; – bed and breakfast type environments; – catering and similar non-retail applications.

यह उपकरण पारिवारिक तथा इसी प्रकार के अन्य (निम्नलिखित) उपयोगों के लिए ही अनुपयुक्त है।

- दुकानों, कार्यालयों एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यक्षेत्रों में स्टाफ किचन एरिया के रूप में,
- फार्महाउस और ग्राहकों द्वारा होटल, मोटेल और दूसरे रिहायशी इलाकों में
- रात्रि विश्रामग्रहों में
- खान-पान तथा समबंधित नॉन रिटेल उपयोगों में
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety./ यह उपकरण उन व्यक्तियों (बच्चों सहित) के लिए उपयोगी नहीं है जो कम शारीरिक, संवेदी या मानसिक क्षमताओं वाले हैं या उनमें अनुभव एवं ज्ञान का अभाव है, जब तक कि उनको उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग से सम्बन्धित पर्यवेक्षण या निर्देश न दें।
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance./ यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे उपकरण के साथ नहीं खेलेंगे, बच्चों को निगरानी में रखें।
- If the appliance is equipped with a lock (some models only), keep the key out of reach of children./ अगर उपकरण में लॉक (केवल कुछ मॉडल के लिए) लगा हुआ है, तो चाबी को बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
- Ensure proper placement of Tray Fresh Room otherwise Defrost water water will drip inside the refrigerator./ ट्रे फ्रेश रूम का उचित स्थान सुनिश्चित करें अन्यथा डीफ्रॉस्ट पानी का पानी क्रिज के अन्दर डूब जाएगा।
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance./ इन उपकरणों में विस्फोटक पदार्थ जैसे कि ज्वलनशील प्रणोदक वाले एयरोसोल के डिब्बे इत्यादि न रखें।
- Never store chemicals and explosives near the refrigerator, such as gas cylinder etc./ रेफ्रिजरेटर के पास कभी केमिकल और विस्फोटक न रखें, जैसे-गैस सिलिण्डर आदि।
- Do not touch the Backside of Refrigerator. It may become hot during normal operation./ रेफ्रिजरेटर के पिछले भाग को स्पर्श ना करें। यह सामान्य ऑपरेशन के दौरान गर्म हो सकता है।



Cleaning / सफाई

- When cleaning the inside or outside of the appliance, do not wipe it with a rough brush, toothpaste, or flammable materials. Do not use cleaning agents containing flammable substances./ उपकरण की अंदर या बाहर से सफाई करने हेतु खुरदरा ब्रश, दूधपेस्ट या ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। ज्वलनशील पदार्थ युक्त सफाई एजेंट का उपयोग न करें।
- This may cause discoloration or damage to the appliance./ इससे उपकरण में रंग मलिनिकरण या क्षति हो सकती है।
- Flammable substances: alcohol (ethanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, benzene, flammable liquid, abrasive, etc./ ज्वलनशील पदार्थ : एल्कोहल (ईथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल इत्यादि) थिनर, ब्लीच, बेंजीन, ज्वलनशील तरल, अपघर्षक, आदि।



During Vacations / अवकाश के दौरान

- During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odour formation. To operate again, let the refrigerator run for 6-8 hrs. for stabilization.



औसतन छुट्टियों के दौरान सबसे अच्छा रहेगा कि आप रेफ्रिजरेटर को चलता रहने दें। फ्रीजिबल सामानों को फ्रीजर में लम्बी अवधि के लिए रख दें। जब आप लम्बे समय के लिए बाहर हों तो सभी खाद्य पदार्थों को निकाल लें तथा विद्युत तार को निकाल दें। अन्तरिक रूप से पूरी सफाई करें और प्रत्येक दरवाजे को खोल दें, जिससे दुर्गन्ध न हो। दुबारा ऑपरेंट करने के लिए, रेफ्रिजरेटर को 6-8 घंटे तक चलता रहने दें।

Shifting / स्थानान्तरण

- While shifting the refrigerator, two people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator./रेफ्रिजरेटर को स्थानान्तरित करते समय सुरक्षार्थ कम से कम दो आदमी लगने चाहिए। दरवाजे को टेप से अच्छी तरह बंध दें या लॉक लगा दें ताकि वह स्थानान्तरित करते समय खुल ना जाए।
- Always remove Gasket when discarding Refrigerator/ रेफ्रिजरेटर को छोड़ने से पहले गैसकेट को निकाल लें।



Installation

Refrigerator should be located properly in ventilated area.

Levelling of refrigerator should be done with front legs. Refrigerator should be levelled with front to back inclination for base.

रेफ्रिजरेटर को सही तरह से हवादार जगह पर रखें।


रेफ्रिजरेटर के स्तर को निश्चित करने के लिए कम या अधिक करने वाले पैरों की सहायता लेनी चाहिए। इसकी जमीन पर सुस्थिर करने के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि यह थोड़ा सा आगे से पीछे की ओर झुका हो।

- In case of Base stand model levelling of refrigerator should be done with front leg of Base Stand

बेस स्टैंड मॉडल के संदर्भ में रेफ्रिजरेटर को समतल करने के लिए बेस स्टैंड के सामने वाले पाये का इस्तेमाल करना चाहिए।

- In selected models only.

केवल चयनित मॉडल के लिए




After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.

उपकरण को इंस्टॉल करने के बाद, बिजली के सॉकेट में प्लग को लगाएँ। उपकरण को हटाने और तार निकालने से पूर्व, बिजली के सॉकेट से प्लग निकाल लें।


Dimensions and Clearances / आकार और परिवेश

- Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

नजदीक रखे गए सामान से बहुत कम दूरी फ्रीजिंग क्षमता में कमी और बढ़े हुए बिजली के बिल का कारण हो सकती है। उपकरण को इंस्टॉल करते समय हर करीबी दीवार से 50मिमी से अधिक की दूरी बनाए रखें।



Covered Condenser



Open Condenser

(mm)	Handle Detail	GL-161 1'2"	GL-191 3'(INV) / GL-191 1'2"	GL-199 1'2"	GL-201 3' (INV)	GL-201 3' (RECIP) / GL-201 4"	GL-201 5'
A		538	537	537	534	534	534
B		1147	1142	1142	1172	1172	1172
C	w/o Handle	590	596	596	603	621	642
	w Handle	-	627	636	632	650	671
D		20	20	20	20	38	58
E		570	576	576	563	563	564
F			607	616	612	612	613
G		1060	1059	1059	1049	1067	1087
H	w/o Handle	907	913	913	891	891	891

Note : RECIP → Reciprocating Compressor Model, INV → Inverter Compressor Model

Ambient Temperature / व्यापक तापमान

- The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. Do not use the appliance at a temperature exceeding the limit.

The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.

उपकरण को जलवायु क्षेत्र के आधार पर व्यापक तापमानों के एक सीमित दायरे के भीतर संचालित करने के डिजाइन किया गया है। सीमा से अधिक तापमान पर उपकरण का प्रयोग न करें।

आंतरिक तापमान उपकरण की स्थिति के आधार पर प्रभावित हो सकता है, इसमें व्यापक तापमान, दरवाजे को खोलने की आवृत्ति और अन्य कारण शामिल हैं।

- Performance may vary outside specified Ambient Temperature Range
तापमान सीमा के बाहर निर्दिष्ट परिवेश प्रदर्शन भिन्न हो सकते हैं।

The climate class can be found on the rating label.
रेटिंग तालिका में जलवायु श्रेणी प्राप्त की जा सकती है।

*Australia, India, Kenya / *ऑस्ट्रेलिया, भारत, केन्या

Note: The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10°C and 43°C. SN से T तक रेट किए गए एपकरणां का उद्देश्य 10°C और 43°C के बीच के व्यापक तापमान में प्रयोग किए जाने के लिए है।

Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*

Identification of Control

3-pin power socket outlet with proper earthing must be used for electrical connections.

उचित कनेक्शन के साथ 3 पिन पावर सॉकेट आउटलेट का उपयोग बिजली कनेक्शन के लिए किया जाना चाहिए



Specially designed knob gives you facility to control temperature inside Refrigerator.

विशेष रूप से निर्मित नॉब आपको रेफ्रिजरेटर के अन्दर तापमान को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करता है।

TEMPERATURE SETTING



Winter | ❄️ | 1-3
Monsoon | ☁️ | 3-5
Summer | ☀️ | 5-7

Before loading, let refrigerator run for 12 hrs. in No. 4 position.

रेफ्रिजरेटर लोड करने से पहले उसको नं. 4 स्थिति पर 12 घंटे तक चलाएं।

STARTING



12 Hours run

Features

* In selected models only.

* **BEAUTY & CARE BOX / सौंदर्य और देखभाल बॉक्स (Optional)**

Specified storage location for cosmetics and medicines (Keep only those medicines which can be placed in refrigerator).

यह स्थान कॉस्मेटिक व दवायें रखने के काम आता है (केवल फ्रिज में रखने वाली दवायों को ही फ्रिज में रखें)।

* **MOIST BALANCE CRISPER / नमी संतुलन क्रिस्पर (Optional)**

Crisper holds Moisture and it helps to keep vegetables fresh and prevents from getting rotten

यह नमी रोककर सब्जियों को ताजा रखता है व सड़ने से बचाता है।

* **BASE STAND / बेस स्टैंड (Optional)**

Max. storage space is 12 litres in base stand drawer. To be used for storage of dry vegetables only like (Potato, Onion, Etc.)

बेस स्टैंड ड्राअर की अधिकतम क्षमता 12 litres है केवल सूखी सब्जियों जैसे (आलू, प्याज) आदि ही रखें।

* **TOUGHENED GLASS SHELF / सख्त काँच की शैल्फ (Optional)**

LG Glass Shelves are made of Toughened Glass which is capable of withstanding a heavy load so that you can place Heavy Utensils with ease and straight from your kitchen.

LG के ग्लास शैल्फ सख्त काँच के बने होते हैं जिसमें भारी वजन वहन करने की क्षमता होती है जिससे आप भारी बर्तन आसानी से सौधे अपनी किचन से रख सकते हैं।

* **ANTI-BACTERIAL GASKET / एन्टी-बैक्टीरियल गैसकेट**

An effective Anti Bacterial Gasket that prevents moulds & bacterial growth within the refrigerator.

एक प्रभावशाली एन्टी बैक्टीरियल गैसकेट जो रेफ्रिजरेटर के अन्दर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है।

* **HANDLE TYPE / हैंडिल का प्रकार (Optional)**

Strong elegant handle with better grip with good looks & sturdiness.

मजबूत सुन्दर हैंडिल बेहतर पकड़ के साथ अच्छा दिखता है और मजबूत भी है।



★ **VEG BOX / वेज बॉक्स** (Optional as per capacity)

Capacity may vary with model / मॉडल के साथ क्षमता भिन्न हो सकती है।

Bigger Vegetable Basket that stores all Vegetable items

वेज बास्केट बड़ी है जिससे सभी सब्जियां उरामे रखी जा सकती हैं।



★ **FASTEST ICE / फास्टेस्ट आइस**

LG Patented Ice Tray made with a special material mixed with Aluminium provides fastest ice making.

LG की पेटेन्ट आइस ट्रे एक विशिष्ट सामग्री को एल्यूमीनियम के साथ मिलाकर बनाई गई है जिससे बर्फ तेजी से जमती है।



★ **EGG CUM ICE TRAY / अण्डे और बर्फ ट्रे** (Optional)

Specified storage location for eggs it can be used to make the ice in Freezer.

इसे अण्डे रखने के लिये उपयोग किया जाता है, इसे फ्रीजर में बर्फ बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं।



★ **DOOR LOCK / डोर लॉक** (Optional)

• Serviceable type of lock.

लॉक का मरम्मत होने योग्य प्रकार।

• Press the key inside for 'Lock & Unlock'.

बन्द करने और खोलने के लिए चाबी को अन्दर की तरफ दबाएं।



★ **BOTTLE STORAGE / बॉटल स्टोरेज**

Water storage capacity of 10 Bottles of 1 litre in Door baskets.

डोर बास्केट में जल संग्रहण की क्षमता 1 लीटर वाली 10 बोतलों की है।

Suggestion for better cooling & cooling retention / बेहतर ठंडक और प्रतिधारण के लिए सुझाव

1. Before loading let the refrigerator run for **12 hours**. Set the thermostat at **4**.

लोड करने से पहले रेफ्रिजरेटर को 12 घन्टे के लिए चलाएं। थर्मोस्टेट नॉब को 4 पर रखें।

12+
Hours
run




2. Refrigerator needs to run minimum **8 hours** continuously to freeze the EverCool case to provide **maximum** cooling retention.

एवरकूल केस में अधिकतम ठंडक धारण के लिए फ्रिज को कम से कम 8 घन्टे तक चलाना चाहिए।

8
Hours
run continuously

3. Temperature Setting as per shown picture. तापमान को विभिन्न मौसमों के लिए दिखाए गए चित्र के अनुसार सेट करें।

Cooling Control	
Winter	1 2 1-3
Monsoon	1 2 3-5
Summer	1 2 5-7



Operating Procedure

- **DEFROSTING** : It is natural for moisture in there air to condense on the cold surface. This leads to a regular build up of frost on the surface of the freezer. Defrost regularly to avoid heavy frost building on the evaporator which results in reduced cooling efficiency. Remove accumulated Defrost water from tray drip by a soaking object such as sponge
- डिफ्रॉस्ट कैसे करें**: हवा में मौजूद नमी का ठंडी सतह पर जमना स्वाभाविक है. इसलिए फ्रिजर की सतह पर बर्फ जमती रहती है। बर्फ की जमावट के कारण कम ठंडक उत्पन्न होती है और क्षमता घट जाती है। इसलिए इसे नियमित रूप से डिफ्रॉस्ट करें। स्पंज जैसे मिगोने वाली वस्तु ट्रे-ड्रिप से संचित पानी निकालें।

Push the defrost Knob after every 3 days / Ice Level reaches defrost indicator.

प्रत्येक 3 दिन में डिफ्रॉस्ट नॉब को दबाकर डिफ्रॉस्ट करें/ जब भी बर्फ डिफ्रॉस्ट निशान तक पहुँचे।




Do not use sharp tool to remove ice tray, otherwise you may puncture the evaporator/Freezer resulting gas leakage thus non performance of refrigerator./बर्फ की ट्रे हटाने के लिए तेज धार वाले औजार का इस्तेमाल न करें वरना इससे फ्रीजर में सूराख होसकता है और परिणामस्वरूप गैस बाहर निकल जायेगी जिससे रेफ्रिजरेटर काम नहीं करेगा।



• **ICE MAKING/बर्फ कैसे बनाएं**

Fill ice trays with water, place in freeze Box. To remove ice cube, gently twist Ice Tray.

बर्फ को ट्रे को पानी से भरे और इसे फ्रीज बॉक्स में रखें। बर्फ निकालने के लिए बर्फ की ट्रे को हल्के से मरोड़ें।




Lamp Replacement / लैम्प विस्थापन

NOTE

- Not all appliance bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with one of the same size, shape and wattage. Refer Lamp enclosure for wattage
आपके रेफ्रिजरेटर में सभी बल्ब फिट नहीं होते। बदले जाने वाले बल्ब का आकार, आकृति और वाटेज जाँच लें वॉटेज के लिए लैम्प एनक्लोजर देखें।

- Unplug the power cord from the outlet. / पॉवर सप्लाय कोर्ड को आउटलेट से बाहर निकाल लें।
- Remove the lamp cover by pulling outside / कवर लैम्प को बाहर की तरफ खींचकर निकाल दें।
 - Make sure the bulbs are cool to touch. / सुनिश्चित करें कि बल्ब छूने योग्य उन्हे हो गए हैं।
 - Care should be taken while removing/ fixing lamp as the glass may crack/break & cause injury/लैम्प को हटाने या ठीक करते समय देखभाल की जानी चाहिये क्योंकि कांच का दरार टूट सकता है और चोट का कारण बन सकता है।



- Remove the lamp by turning it counter clockwise. / घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर लैम्प को निकाल दें।
- Put new lamp and tighten it by turning it clockwise. / नया बल्ब लगाएँ और घड़ी की दिशा में घुमाकर कस दें।
- Make sure the bulb is properly tightened. / सुनिश्चित करें कि बल्ब ठीक से कस गया है।
- Put the cover lamp back and push it gently with your thumb till a click sound appears.
कवर लैम्प को वापस उसी स्थान पर लगाएँ और अंगूठे से हल्का सा दबाएँ रखें जब तक क्लिक की ध्वनि न आये।

How to get good results

- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. this prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients.

रेफ्रिजरेटर में खाना रखते समय उस विनायल में लपेट दें या ढक्कन वाले डिब्बे में रखें। यह नमी को वाष्पित होने से रोकता है और खाने के स्वाद और स्वास्थ्य तत्वों को सुरक्षित रखने में मदद करता है।

- Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator. This will result in an increased temperature and increase in power consumption.

गर्म दूध या गर्म भोजन को अपने रेफ्रिजरेटर में न रखें। इसके परिणामस्वरूप तापमान बढ़ेगा जिससे बिजली की ज्यादा खपत होगी।

- Do not leave refrigerator open for long time. Don't open the refrigerator door too often, hot air will enter and increase the temperature.

रेफ्रिजरेटर को ज्यादा समय तक खुला न छोड़ें। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार-बार न खोलें। इससे गर्म हवा अंदर जाती है और तापमान को बढ़ा देती है।

- Never overload your refrigerator or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency.

अपने रेफ्रिजरेटर को ओवर लोड न करें और ना ही पेपर या प्लास्टिक की पत्रियों से शैल्फ को ढकें क्योंकि इससे रेफ्रिजरेटर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी।

- Close the door properly, make sure that there is no gap between the gasket and the cabinet of your LG refrigerator.

दरवाजे को अच्छे से बन्द करें ताकि आपके LG रेफ्रिजरेटर की कॅबिनेट और गैसकेट के बीच जगह ना रहे।

- Wipe excessive moisture on food or place it inside containers or plastic net bags. This will help in retaining its freshness for a longer period of time.

खाद्य पदार्थ के ऊपर से अत्यधिक नमी को साफ कर दें या फिर उन्हें किसी box या प्लास्टिक जॉल थैली में रखें। ऐसा करने से आपका खाना ज्यादा समय तक ताजा रहेगा।

- Feel free to call your LG Customer Information Centre (CIC) / Branch / LG Representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit.

रेफ्रिजरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर कोई नुकसान हो जाए तो अपने LG Customer Information Centre (CIC) / ब्रांच / LG के प्रतिनिधि को बुलाएँ।

- It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5kVA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (135-290V)** , Stabilizer usage helps in increasing the refrigerator life.

*For inverter models specified voltage range is 90V-310V**
यदि बिजली बार-बार कम या ज्यादा आ रही है या निर्दिष्ट वोल्टेज क्षमता (135-290V)** से भिन्न है तो यह सलाह दी जाती है कि वोल्टेज रेगुलेटर (0.5kVA) का प्रयोग करें। स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर का जीवन बढ़ाने में मदद करता है।

* इन्वर्टर मॉडल के लिए निर्दिष्ट वोल्टेज रेंज 90V-310V** है।

**As per LG Test Standards. / **एलजी मानक के अनुसार।



- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.
- अगर उपकरण में चिल्ले वाले भाग हैं, तो उच्च नमी वाली सब्जियों और फलों को चिल्ले वाले भाग में भंडारित ना करें क्योंकि कम तापमान के कारण वे सब जम सकते हैं।
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
- बिजली की कटौती के समय में, बिजली कंपनी को फोन करें और पूछें ये कटौती कब तक रहने वाली है।
 - Avoid door opening while power off. It may affect the food inside.
 - बिजली बंद होने पर दरवाजा खोलने से बचें। यह अंदर के भोजन को प्रभावित कर सकता है।
- Check the condition of food before consuming
 - खाने से पहले भोजन की स्थिति जांच लें।
- if you are leaving the appliance turned off for an extended (more than or equal to 3 days) period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mold from growing in the appliance.
 - अगर आप उपकरण को (3 दिनों से अधिक या बराबर) समय तक बंद करके छोड़ रहे हैं, तो खाने की समस्त वस्तुएँ निकाल लें और बिजली के तार को बाहर कर दें। अंदर के भाग को साफ़ कर दें, और उपकरण में मोल्ड बनने से बचाव के लिए दरवाजे को हल्का सा खुला रखें।

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)



1. When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.

2. Do's

- a. The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
- b. Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional / unrepairable so as to prevent its accidental breakage.

Don't

- a. The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
 - b. The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/kabariwalah.
 - c. The product is not meant for mixing into household waste stream.
 - d. Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
3. Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.
 4. Hazards of improper handling or accidental breakage
 - a. The refrigerant (R134a) used, if overexposed, might cause dizziness and loss of concentration. Liquid contact can cause irritation and frostbite. The refrigerant (R600a), squirting out of the pipes could ignite or cause eye injury.
 - b. The blowing agent cyclopentane is highly flammable liquid and vapor. Harmful to aquatic life. Contact with liquid may cause cold burns / frost bites. Repeated exposure causes skin dryness.
 5. "This product is complied with the requirement of Hazardous Substances as specified under Rule 13 (1) & (2) of the E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011".
 6. To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. 1800-315-9999 / 1800-180-9999 for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with LG Electronics India Pvt. Ltd. merely as a facilitator.

For more detailed information, please visit :
<http://www.lg.com/in>

📞 9711709999 (LG WhatsApp No.)

अपने पुराने उपकरण का निपटारा (उत्पाद ई-अपशिष्ट के अनुसार)



1. जब इस कार्टे गये पहिचे वाले बिन का चिह्न किसी उपकरण और इसके ऑपरेटर की पुस्तिका के साथ संलग्न होता है तो इसका अर्थ है कि इसे ई-अपशिष्ट (प्रबंकर और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, और इसे नवीनीकरण, विघटन और निपटारा के लिए बनाया गया है।

2. करें-

क- उपकरण को सिर्फ अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता को ही निपटारा करने हेतु हस्तान्तरित करें।

ख- जब उपकरण कार्यरत न हो तो इसे अलग क्षेत्र में रखें ताकि उपकरण से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

ना करें-

क- इस उपकरण को स्वयं/ खुद नही खोलना चाहिए। उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।

ख- इस उपकरण को पुनः बिक्री के लिए किसी भी कबाड़ीवाला/ मंगार-वाला / अनाधिकृत संस्था को न दें।

ग- इस उपकरण को किसी घरेलू अपशिष्ट सामान के साथ मिलाकर न रखें।

घ- उपकरण के बदले हुए या आंतरिक पुर्णों को खुले क्षेत्र में न रखें।

3. यदि किसी अनाधिकृत विभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारा किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा 1986 के अन्तर्गत आता है।

4. दुर्घटनाग्रस्त दूद फूट तथा अव्यवस्थित रख-रखाव से बचाव।

क- रेफ्रीजरेंट (R134a) यदि सम्पर्क में अधिक आता है तो, चक्कर आना व एकाग्रता में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तरल पदार्थ का सीधा सम्पर्क, शीतदश व जलन का कारण हो सकता है। इसी प्रकार रेफ्रीजरेंट (R600a) का पाईपों से रिसाव होने से आग लग सकती है तथा आँखों में खरब हो सकती है।

ख- साइक्लोपेन्टेन अत्यंत ज्वलनशील तरल व वाष्पीय होने के कारण उद्दित जीवन के लिए काफी नुक्सान देह हो सकता है। तरल पदार्थ के सम्पर्क में आने पर ठण्डी जलन तथा बार बार सम्पर्क में आने से त्वचा शुष्क हो सकती है।

5. यह उत्पाद ई-अपशिष्ट (प्रबंकर और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत 13(1) एवं (2) के तहत निर्दिष्ट खतरनाक पदार्थों की आवश्यकता का पालन करता है।

6. उपरोक्त पदार्थों के निपटारा के लिए नजदीकी निपटारा संस्थान (संकीर्ण क्षेत्र) में कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-315-9999 / 1800-180-9999 पर कॉल करें, सभी संग्रहण केन्द्र व पिक-अप की सुविधाएँ किसी थर्ड-पार्टी जो LG Electronics India Pvt. Ltd को अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही हों, से करायाएँ।

ज्यादा जानकारी के लिए देखें वेबसाइट :
<http://www.lg.com/in>

📞 9711709999 (LG WhatsApp No.)

Self Troubleshooting Guide / स्वतः-समस्या - समाधान गाइड

Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
1. Refrigerator does not work.	<ul style="list-style-type: none"> Thermostat switch in 'OFF' position. Power Supply Off. 	<p>Check that the thermostat knob is on 'Normal' (No.4) position and not in OFF position.</p> <p>Check that the refrigerator main supply plug is connected to the wall socket and that the supply is ON. Check that the fuse is intact in the supply line.</p>
2. Refrigerator attempts to start, but does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> Stabilizer not working properly Low Voltage. 	<p>Please plug power cord of refrigerator directly in the wall socket and then check, if it works then get the stabilizer checked by Stabilizer Repairing Centre.</p> <p>Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.</p>
3. Refrigerator contents not cooling. And Difficulty in formation of ice and ice-cream.	<ul style="list-style-type: none"> Defrosting over due Restriction of cold air circulation. Improper thermostat control selection. Storing hot foods. 	<p>Defrost the refrigerator.</p> <p>Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it.</p> <p>If the refrigerator is required to give a low temperature turn the thermostat knob towards colder (No.7) position.</p> <p>Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.</p>
4. Formation of water drops on exterior of refrigerator.	<ul style="list-style-type: none"> High humidity during monsoon season. 	<p>During the monsoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90%, water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal or proper and uniform contact with the cabinet.</p>
5. Formation of droplets on the underside of the Chiller tray.	<ul style="list-style-type: none"> Hot and humid climate. 	<p>In hot and humid weather the moist air rushes inside whenever the refrigerator door is opened. This results in excess frosting on the Evaporator and condensation on the Chiller tray bottom. Avoid too frequent door openings.</p>
6. Smell and odour.	<ul style="list-style-type: none"> Improper covering and wrapping of food. 	<p>Wrap and cover food stuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores. If the smell persists, defrost the refrigerator, remove all foodstuffs, clean the refrigerator thoroughly and wipe it dry before restarting.</p>
7. Noise	<ul style="list-style-type: none"> Normal cut-off/ cut-in noise 	<p>Whenever refrigerator starts & stop there is noise of Thermostat cut-off/ cut-in & Compressor start/stop. This is a normal phenomenon.</p>
8. Noise from Freezer	<ul style="list-style-type: none"> Hissing noise from Freezer 	<p>This is normal gas expansion noise</p>
9. Bulb does not glow	<ul style="list-style-type: none"> Bulb fused 	<p>Bulb is not covered under warranty LG Service Engineer will replace this on cost basis.</p>

समस्या	संभावित कारण	समाधान
1. रेफ्रिजरेटर काम नहीं करता	<ul style="list-style-type: none"> थर्मोस्टेट का स्थिति 'ऑफ' स्थिति में विद्युत आपूर्ति बंद 	<p>देखिए कि थर्मोस्टेट का नॉब 'सामान्य' (नं.4) की स्थिति में हो न कि 'ऑफ' स्थिति में।</p> <p>ये भी देख लीजिए कि रेफ्रिजरेटर की मेन्स सप्लाय का प्लग वॉल सॉकेट में लगा हो और आपूर्ति चालू हो। ये भी जांच लीजिए कि विद्युत लाइन में लगा फ्यूज ठीक हो।</p>
2. रेफ्रिजरेटर चालू होने लगता है पर काम नहीं करता	<ul style="list-style-type: none"> स्टेबिलाइजर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा कम वोल्टेज 	<p>रेफ्रिजरेटर को सीधे वॉल सॉकेट से जोड़ें और फिर देखें, यदि बिना स्टेबिलाइजर के सही काम कर रहा है तो स्टेबिलाइजर खराब है। इसकी जांच कराएं।</p> <p>मेन्स में लाइन - कंक्टिंग ट्रांसफॉर्मर लगाएं या वोल्टेज स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल करें।</p>
3. रेफ्रिजरेटर में रखी सामग्री ठंडी नहीं होती और बर्फ और आइसक्रीम बनने में कठिनाई	<ul style="list-style-type: none"> वक्त पर डीफ्रॉस्टिंग नहीं की गई, ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट गलत थर्मोस्टेट नियंत्रण का चयन गर्म भोजन का मंडारण 	<p>रेफ्रिजरेटर को डीफ्रॉस्ट कीजिए, बर्तनों के बीच जगह बनाइए, शेल्फ कपड़े या पोलिथीन से दूकी हो तो उन्हें हटा दीजिए।</p> <p>अगर रेफ्रिजरेटर को कम तापमान पर रखना जरूरी हो तो थर्मोस्टेट नॉब को ठंडी स्थिति (नं.7) में घुमाएं।</p> <p>गर्म पदार्थ रेफ्रिजरेटर में रखने से बचे। रेफ्रिजरेटर में मंडारण से पहले उन्हें कमरे के तापमान तक ठंडा कर लें।</p>
4. रेफ्रिजरेटर के बाहर पानी की बूंदें जमना	<ul style="list-style-type: none"> मानसूनी मौसम के कारण अत्यधिक आर्द्रता 	<p>मानसून के मौसम में जबकि वातावरण में आर्द्रता 90% तक हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर की बगल में, खास तौर पर ऊपरी हिस्से में पानी की बूंदें जम सकती हैं, इस नमी को समय-समय पर साफ करना चाहिए। हमारे सर्विस प्रतिनिधि को बुलाकर ये जांच करवा लीजिए कि दरवाजे कॉम्पैनेट के साथ एक समान संपर्क में हैं और अच्छी तरह बंद होते हैं।</p>
5. चिलर ट्रे के नीचे बूंदों का निर्माण होना	<ul style="list-style-type: none"> गर्म और आर्द्र मौसम 	<p>गर्म और आर्द्र मौसम में जब भी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला जाता है तो नम हवा अंदर प्रवेश कर जाती है, इससे इवापरेटर पर अत्यधिक फ्रॉस्ट जम जाती है और चिलर ट्रे के नीचे बूंदें बन जाती हैं, इसलिए बार-बार दरवाजा न खोलें।</p>
6. बर्फ और दुर्गंध	<ul style="list-style-type: none"> खाद्य पदार्थ ठीक से ढके और लपेटे नहीं गए 	<p>खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह ढक कर और लपेट कर रखें, तरल पदार्थों को बोतलों और दूसरे पात्रों पर ढक्कन लगाकर रखें। फिर भी गंध आए तो रेफ्रिजरेटर से सब सामग्री निकाल लें, डीफ्रॉस्ट करें, अच्छी तरह साफ करें और फिर चालू करने से पहले सूखने दें।</p>
7. आवाज	<ul style="list-style-type: none"> सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर के बंद/चालू होने की आवाज 	<p>थर्मोस्टेट और कम्प्रेसर के चालू/बंद होने के कारण रेफ्रिजरेटर चालू/बंद होता रहता है जिससे आवाज आती है। यह सामान्य प्रक्रिया है।</p>
8. फ्रीजर से आवाज	<ul style="list-style-type: none"> फ्रीजर से विशेष प्रकार की आवाज 	<p>यह आवाज गैस के फैलने की वजह से आती है।</p>
9. बल्ब का नहीं जलना	<ul style="list-style-type: none"> फ्यूज बल्ब 	<p>बल्ब वारंटी के अन्तर्गत नहीं आता है। LG सर्विस इंजीनियर इसकी उचित कीमत लेकर बदल देगा।</p>

Disclaimer: These are only meant for reference purposes. In case problem still persist please contact to service centre. Normal visit charges may apply/ये केवल सन्दर्भ उद्देश्यों के लिए है, यदि समस्या अभी भी बनी हुई है, तो कृपया सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें। सामान्य यात्रा शुल्क लागू।

WARRANTY CARD

The LG Refrigerator (hereinafter referred as product) comes with 1 year warranty on all Parts (except Consumables, Bulb, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year from the date of purchase on producing the tax paid invoice provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorized Dealer showing the Additional warranty on compressor as specified below shall be on fulfilling the above mentioned conditions.

9 YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON COMPRESSOR

The 9 year warranty on Compressor will continue even after the expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty covers Compressor only. Gas/ Gas charging will be charge to customer. Gas charging is included only when compressor is defective & inoperative. During the additional warranty period, it does not cover any part such as PCB assembly, condenser, freezer, capillary, suction line, overload protector, relay, thermostat etc.. Standard visiting charges will be applicable within the municipal limit of town where LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGEIL) has its Authorized Service Centre, Service outside municipal limit will attract to and fro travelling, other incidental expenses in addition to visiting charges, as prevailing from time to time. During the warranty period, only the parts replaced or repaired shall be free of cost, but service charges shall always be payable by the customer.

Common TERMS & CONDITIONS applicable for warranties as mentioned above:

- The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only & is non-transferable.
- Repairs & replacements will be carried out through the Authorized Service Centres of LG Electronics India Pvt Ltd. (hereinafter referred as LG or LGEIL). Customer may place their service call through the LG customer care or through the dealer from whom the product has been purchased. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact our helpline.
- Repair under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized helplines are attached.
- For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Centre, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service centre and bring the unit to the authorized service at its own cost and risk. All expense incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service centre, as well as expenses incurred with deputing of service personnel/technician toward conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its own risks & consequences.
- The concerned authorized service centre will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service centre.
- Call registered with the centralized helpline/Authorized service centre, wherein only cleaning of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the units are not to be considered as defects.
- In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. LGEIL may use parts that are new or refurbished and equivalent to new in performance and reliability. Replacement of parts will be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEIL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model price equivalent at the time of purchase.
- In case of any damage to the product/customer abuse/repairs by un-authorized personnel/s misuse detected/ by the Authorized Service Centre personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
- This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect being noticed in the equipment during warranty period Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
- The company or its Authorized Service Centre reserves the right to retain any part/s or component replaced its discretion, in the event of defect being noticed in the equipment during warranty period.
- While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
- In the event of any unforeseen circumstance, and spares not being available, the company's prevailing depreciation rules will be binding on the purchaser to accept as a commercial solution in lieu of repairs.
- If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be chargeable basis except the component which actually needed.
- Free Installation or Demo of the product, can be availed only once & within 3 months from the date of purchase.
- Any extended warranty offered by LGEIL has to be supported by relevant proof.
- Warranty shall expire after the warranty period as mentioned above even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty period for any reason.
- Only courts in state of Delhi and places where LGEIL has its branch office shall have the jurisdiction for settling any claims, disputes arising under the warranty.
- Warranty is not applicable in any of the following cases where:
 - the warranty card is not completed properly at the time of purchase,
 - the completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product,
 - the product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet/Owner's Manual,
 - the product is used for commercial purposes,
 - the product has failed under certain conditions like water logging, flood, fire, misuse etc.,
 - defects/ malfunction are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel,
 - any repair work is carried out by persons other than authorized service personnel,
 - defect/ malfunction are caused which are beyond control like lightning, abnormal voltage, Acts of God, virus etc.,
 - any issue is caused by usage of 3rd party product like voltage stabilizer, power outlet socket, MCB, extension board etc.,
 - defects/ malfunction caused while in transit to service centre or purchaser's residence,
 - defects caused by rodents bite or by pests and vermin ants/Insects/animals/birds etc.,
 - the serial number is deleted, defected or altered,
 - damage is caused to the product or any part/s due to transportation or shifting,
 - use of knife or sharp instrument is used to remove the ice trays or Ice from the freezer or to remove the frost mechanically and as a result Compressor, Evaporator, Condensers, capillary, suction line & other related items get spoiled,
 - any accessory external to the equipment are supplied by dealer or LG,
 - any issue of Wi-Fi connectivity or compatibility with other products or software's is there,
 - any loss of data

MODEL No. :

DATE OF PURCHASE :

CUSTOMER'S NAME & ADDRESS

TEL. _____

Customer's Signature

This card is valid only if it is filled in and stamped by our authorized dealer on the date of purchase.

CUSTOMER'S DETAILS

SERIAL No. :

DEALER'S NAME & ADDRESS

TEL. _____

Dealer's Signature



MFL42961914

LG Electronics India Pvt. Ltd.

Phone	1800-315-9999, 1800-180-9999 24 hours, 7 days a week (except for national holidays)
WhatsApp No.	9711709999
SMS	5757554
Mobile Application	'LG Service India Mobile App' available at Google Play
SNS	www.facebook.com/lgindiapage www.twitter.com/LGIndia
Address	Regd. Office: LG Electronics India Pvt. Ltd., A-24/6, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044, CIN No. U32107DL1997PTC220109